

**भाग-III****हरियाणा सरकार**

सत्कार संगठन हरियाणा

**अधिसूचना**

दिनांक 22 फरवरी, 2019

**संख्या सांका०नि० 15/संवि०/अनु० 309/2019** — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सत्कार संगठन (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा सत्कार संगठन (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा सत्कार संगठन (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1986 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे—,
  - (I) क्रम संख्या 1 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“1 पर्यवेक्षक	<ol style="list-style-type: none"> <li>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ;</li> <li>(ii) किसी ख्याति प्राप्त होटल/ रेस्तरां में खान-पान में तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त खान-पान संस्था का प्रमाण-पत्र ; तथा</li> <li>(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;</li> </ol>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <p>सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;</p> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) पर्यवेक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव; तथा</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।”।</li> </ol>
---------------	---	---

- (II) क्रम संख्या 4 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“4. कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	<ol style="list-style-type: none"> <li>(i) 10+2 ;</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;</li> <li>(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि में तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में तथा उसका प्रतिलेखन 20 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो;</li> </ol>	<p>पदोन्नति द्वारा—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; तथा</li> <li>(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि में तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में तथा उसका प्रतिलेखन 20 शब्द प्रति मिनट की गति से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो;</li> </ol> <p>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा —</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;</li> <li>(ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत.”;</li> </ol>
-----------------------------------	---	---

(III) क्रम संख्या 7 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“7. काऊंटर लिपिक

- (i) 10+2 ;
- (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;
- (iii) किसी प्रख्यात होटल/रेस्तरां में दो वर्ष का अनुभव ;  
या  
किसी मान्यताप्राप्त खान-पान संस्था का उपाधि पत्र, प्रमाण - पत्र होना चाहिए।

पदोन्नति द्वारा -

ग्रुप ग कर्मचारियों या ग्रुप घ कर्मचारियों के रूप में या ऐसे रूप में पांच वर्ष का संयुक्त अनुभव सहित 10+2;

स्थानान्तरण द्वारा-

- (i) काऊंटर लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; तथा
- (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/ संस्कृत।”।

डी० एस० ढेसी,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT  
HOSPITALITY ORGANISATION**

**Notification**

The 22nd February, 2019

**No. G.S.R. 15/Const./Art. 309/2019.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Hospitality Organisation (Group-C) Service Rules, 1986, namely :-

**1** These rules may be called the Haryana Hospitality Organisation (Group-C) Service (Amendment) Rules, 2019.

**2** In the Haryana Hospitality Organisation (Group-C) Service Rules, 1986, in APPENDIX B, under columns 1, 2, 3 and 4 :-

(I) against serial number 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“1 Supervisor	(i)	Graduate of a recognised university ;	by promotion- five years experience as Assistant ;
	(ii)	Certificate of a recognised Institute of Catering with 3 years Experience in some Hotel / Restaurant of repute ; and	by transfer or deputation- (i) five years experience as Supervisor; and
	(iii)	Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education	(ii) Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.” ;

(II) against serial number 4, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :-

“4. Junior Scale Stenographer	(i)	10+2 ;	by promotion -
	(ii)	Hindi / Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education	(i) Three years experience as Stenotypist; and
	(iii)	Qualifies Junior Scale Stenographer’s test in Hindi Shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute or English Shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute ; and	(ii) should qualify the departmental test in Hindi shorthand at the speed of 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute or English Shorthand at the speed of 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute by transfer or deputation— (i) three years experience as Junior Scale Stenographer; and (ii) Hindi / Sanskrit upto Matric or Higher Education.”;

(III) against serial number 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

“7. Counter Clerk	(i)	10+2 ;	by promotion –
	(ii)	Hindi/Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education ;	10+2 with five years experience as Group-C employees or Group-D employees or combined experience as such
	(iii)	Two years experience in some Hotel/Restaurant of Repute ; or should have a diploma /certificate of a recognised Catering Institute; and ;	by transfer or deputation - (i) Two years experience as Counter Clerk ; and ; (ii) Hindi/ Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.”.

D. S. DHESI,  
Chief Secretary to Government Haryana.